

**एस0ओ0जी एवं थाना रोजा की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी,  
दिनदहाडे चार लाख रुपये छीनने की घटना का किया सफल अनावरण,  
सूचना देने वाले ने दी थी रुपये छीनने की झूठी सूचना, रुपये हडपने की नीयत से  
खुद ही बनाई थी घटना की योजना, 03 लाख 85 हजार रुपये बरामद।**

दिनांक 12.05.21 को असलम खाँ पुत्र वशीर खाँ निवासी पिलखना थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर द्वारा थाना रोजा पुलिस को सूचना दी गई कि वह रोजा मंडी से आढती श्यामलाल रविंद्र कुमार की आढत से ₹400000 (चार लाख) कैश उधार लेकर मोटरसाइकिल से हाईवे रोड भावल खेड़ा की ओर जा रहा था कि दो अपाचे मोटरसाइकिल सवार द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उससे ₹400000 (चार लाख रुपये) से भरा बैग छीन कर भाग गए हैं, इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया एवं थाना रोजा पर मुकदमा अपराध संख्या 218/21 धारा 356/382 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

श्री एस. आनंद पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर द्वारा दिनदहाडे हुई इस सनसनीखेज घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, श्री अरविंद कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण एवं श्री दिनेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा व श्री रोहित कुमार प्रभारी एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम का गठन कर घटना का अतिशीघ्र अनावरण करने के कड़े दिशा निर्देश दिए गए एवं प्रतिदिन की मानीटरिंग की जाने लगी।

इसी क्रम में घटना के खुलासा हेतु लगाई गई संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के माध्यम से गहनता से छानबीन की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हुई जिसमें वादी मुकदमा असलम से कड़ाई से पूछताछ की गई तो असलम खाँ द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा रुपये हडपने की नीयत से इस घटना की योजना बनाई गई थी एवं पुलिस को झूठी सूचना दी गई वादी मुकदमा के बयानों एवं निशानदेही पर घटना से सम्बन्धित उसके घर से ₹385000 (03 लाख 85 हजार) बरामद किए गए एवं उसके द्वारा बताया गया कि ₹15000 मैंने ईद पर खर्च कर लिए हैं बरामदगी के आधार पर असलम खाँ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया एवं थाना रोजा पर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

असलम खाँ पुत्र वशीर खाँ निवासी पिलखना थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

₹385000 (03 लाख 85 हजार)

**घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. श्री दिनेश दिनेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।
2. श्री रोहित सिंह प्रभारी एस0ओ0जी टीम जनपद शाहजहांपुर।
3. हेड कांस्टेबल उदयवीर
4. हेड कांस्टेबल अमरजीत
5. हेड कांस्टेबल राजाराम पाल
6. कांस्टेबल दिलीप कुमार
7. कांस्टेबल अजय कुमार
8. कांस्टेबल ज्ञानेंद्र सिंह
9. कांस्टेबल प्रभात कुमार
10. कांस्टेबल चालक कपिल एस0ओ0जी टीम जनपद शाहजहांपुर।

**सर्विलांस सेल टीम:-**

1. कांस्टेबल अजय चौधरी
2. कांस्टेबल संजीव कुमार